

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ने कोविड-19 के दौरान लोकल रेस्टोरेंट्स को सहयोग करने के लिए पैटियो ब्रैम्पटन प्रोग्राम की शुरुआत की

ब्रैम्पटन, ओन्टारियो (24 जून, 2020) – आज, ओन्टारियो सरकार (Government of Ontario) ने रीजन ऑफ पील (Region of Peel) को दुबारा खोलने के पड़ाव 2 में प्रवेश करने की अनुमति दी, जिससे ब्रैम्पटन में रेस्टोरेंट्स और बार्स के बाहरी क्षेत्रों (आउटडोर एरियाज) को खाने के लिए खोला जा सकेगा। इस बदलाव को सहयोग करने के लिए, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने, पैटियो ब्रैम्पटन (Patio Brampton) प्रोग्राम की शुरुआत की है। यह प्रोग्राम, रेस्टोरेंट्स और बार्स के लिए, उनके पैटियोज का विस्तार करने और बाहरी स्थानों (आउटडोर स्पेसिज) पर शारीरिक दूरी कायम रखने को काफी आसान बना देगा। पैटियो ब्रैम्पटन प्रोग्राम के द्वारा, अधिक निवासी गर्मी के मौसम में आनंद लेने के लिए बाहर जा पाएंगे और लोकल कारोबारों को सहयोग कर पाएंगे।

लोकल कारोबार, ब्रैम्पटन की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सिटी, उनकी कोविड-19 (COVID-19) महामारी के प्रभावों से बहाली में उन्हें सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। पैटियो ब्रैम्पटन प्रोग्राम, आवेदनों और परमिटों की अधिक जल्दी प्रक्रिया को सुनिश्चित करेगा। यह प्रोग्राम, 1 जनवरी, 2021 तक, पगडंडी, पार्किंग लॉट और पगडंडी के किनारे के पैटियो के लिए फीसों से छूट की अनुमति भी देगा।

बाहरी स्थानों का विस्तार करने के दो विकल्प उपलब्ध होंगे:

- **प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर अस्थायी पैटियो विस्तार** – इस विकल्प से, नए अस्थायी पैटियो बनाए जा सकेंगे और पार्किंग लॉट्स सहित, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर, मौजूदा रेस्टोरेंट और बार के पैटियोज का अस्थायी विस्तार हो पाएगा।
- **म्युनिसिपल प्रॉपर्टी पर या जनता के लिए अधिकृत रास्ते के अंदर अस्थायी पैटियो विस्तार** – इस विकल्प से, जनता के लिए अधिकृत रास्तों (पगडंडियों) सहित, म्युनिसिपल प्रॉपर्टी पर पैटियोज बनाए जा सकेंगे या पैटियोज का विस्तार किया जा सकेगा।

अस्थायी पैटियोज की अनुमति केवल, स्थापित रेस्टोरेंट्स, बार्स और खाने-पीने के संस्थानों के लिए होगी। कारोबारियों के पास इन्हें चलाने के लिए वैध कारोबार संबंधी लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक है। सुलभ पार्किंग स्थान, पार्किंग उपयोग और पहुंच के लिए उपलब्ध रहनी आवश्यक हैं। अस्थायी पैटियोज विस्तार, नियत फायर रूट या चौराहों पर लगे तिकोने साइन बोर्ड (साइट ट्राइएंगल्स) के अंदर स्थित नहीं होने चाहिए। रेस्टोरेंट और बार के ग्राहकों के लिए, उचित संख्या में स्टैंडर्ड पार्किंग स्थानों को बरकरार रखा जाना चाहिए।

अस्थायी पैटियोज विस्तार (Temporary Patio Expansion) के लिए आवेदन, सिटी की [वेबसाइट \(website\)](#) पर उपलब्ध है। आवेदन, सिटी के क्लर्क के कार्यालय पर ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। कोविड-19 महामारी के दौरान, स्टाफ के स्वास्थ्य और सुरक्षा को

कायम रखते हुए, रेस्टोरेंट्स के मालिकों के लिए, आवेदन की समीक्षा संबंधी प्रक्रिया और अंतिम तारीखों को आसान और कारगर बनाया जाएगा।

परमिट के बारे में अधिक जानकारी के लिए, [पैटियो ब्रैम्पटन पेज \(Patio Brampton page\)](#) पर जाएं।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, कोविड-19 से समुदाय की सामूहिक बहाली और स्टाफ व निवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पैटियो ब्रैम्पटन यह सुनिश्चित करेगा कि कारोबारी, शारीरिक दूरी जैसे उपायों और जनता के स्वास्थ्य के संबंध में, ओनटैरियो सरकार द्वारा जारी किए गए अन्य निर्देशों या आदेशों का सम्मान करते हुए, सुरक्षित तरीके से संचालन करना जारी रख सकते हैं।

इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रैटजी

लोकल कारोबार, ब्रैम्पटन की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पिछले महीने, ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) ने, ब्रैम्पटन की इकोनॉमिक रिकवरी स्ट्रैटजी (Economic Recovery Strategy) को मंजूरी दी थी, जिसमें छोटे कारोबारों, रेस्टोरेंट्स और टूरिज़्म को सहयोग करने के कार्य शामिल हैं। इस कार्यनीति के हिस्से के तौर पर, सिटी ने कोविड-19 के दौरान और इसके बाद, निवासियों को लोकल वस्तुओं की पड़ताल करने, उनका चयन करने और खरीदने की सलाह देते हुए, अपने "सपोर्ट लोकल" ("Support Local") अभियान की शुरुआत की थी।

कोविड-19 के दौरान, सिटी द्वारा समुदाय को सहयोग करने के प्रयासों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, www.brampton.ca/COVID19 पर जाएं या @CityBrampton को Twitter, Facebook और Instagram पर फॉलो करें।

उद्धरण

"जैसे कि हम स्टेज 2 की ओर बढ़ रहे हैं और हमारे रेस्टोरेंट्स अपने पैटियोज खोल रहे हैं, हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम उनकी सेवा क्षमता को बढ़ाने के लिए, जल्दी से उनके स्थानों का विस्तार करने में उनका सहयोग कर रहे हैं। साथ ही, हम यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वे पील पब्लिक हेल्थ और प्रांत के, शारीरिक दूरी संबंधी निर्देशों का पालन कर रहे हैं। आइए, हम सब इस गर्मी, ब्रैम्पटन के लोकल रेस्टोरेंट्स को सहयोग करते हुए, बहुत-से शानदार पैटियोज का पूरा लाभ उठाएं।"

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

"हमारे विविध शहर में हमारे पास कई तरह के शानदार रेस्टोरेंट्स हैं। जैसे कि हम बहाली की ओर बढ़ रहे हैं, अब यह पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि हम लोकल को सहयोग करें। पैटियो ब्रैम्पटन प्रोग्राम से, हमारे लोकल रेस्टोरेंट्स हमें अधिक जगह प्रदान कर पाएंगे, जहां हम गर्मी के मौसम में, नए भोजन आजमाते हुए और हमारे लोकल कारोबारों को सहयोग करते हुए, उनके पैटियोज में आनंद ले सकेंगे।"

- पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; को-लीड, इकोनॉमिक स्पोर्ट टास्क फोर्स, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“में हमारे लोकल रेस्टोरेंट्स को सलाह देता हूं कि वे पैटियो ब्रैम्पटन प्रोग्राम के द्वारा, बढी हुई अवधि वाले पैटियो लाइसेंस के लिए आवेदन देने पर विचार करें। हम इसकी प्रक्रिया को अधिक से अधिक स्पष्ट बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, ताकि कारोबारी जल्दी से हमारे समुदाय के लिए, सुरक्षित, बढी हुई सेवा प्रदान कर पाएं।”

- *माइकल प्लेशी (Michael Palleschi), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 2 और 6; को-लीड, इकोनॉमिक स्पोर्ट टास्क फोर्स; सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“हमारा रीओपनिंग एंड रिकवरी वर्किंग ग्रुप, यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम कर रहा है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को सहयोग करने और जनता की सुरक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाए रखने के बीच में सही संतुलन कायम करते हुए, शहर को दुबारा खोलने के प्रत्येक फेज के लिए तैयार रहें। हमारी सिटी के पैटियोज को दुबारा खोलना, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कार्य है और हम प्रतिबद्ध हैं कि यह बिना किसी बाधा के हो।”

- *मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4; लीड, रीओपनिंग एंड रिकवरी वर्किंग ग्रुप*

“काउंसिल और स्टाफ, स्टाफ और निवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को कायम रखना जारी रखते हुए, लोकल कारोबारियों को सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जब वे कोविड-19 महामारी के जारी प्रभावों से बाहर निकल रहे हैं। स्टाफ, पैटियो ब्रैम्पटन प्रोग्राम के अंतर्गत, परमिटों और आवेदनों की प्रक्रिया के लिए पूरी मेहनत से काम करेगा, ताकि बार्स और रेस्टोरेंट सुरक्षित रूप से, दुबारा हमारे समुदाय को सेवा दे पाएं।”

- *डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन*

“इस साल, तुरंत मंजूरीयां प्राप्त करना, कई रेस्टोरेंट्स के लिए एक जरूरी मुद्दा है। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की सराहना है कि उसने पूरे शहर में, रेस्टोरेंट पैटियो के विस्तारों को मंजूरी देने की प्रक्रिया इतनी जल्दी की है। यह नीति, महामारी कारण छोटे हुए गर्मी के सीजन के दौरान, लोकल रेस्टोरेंट्स की, उनके ग्राहकों को सुरक्षित रूप से सेवा देने में मदद करती है। मेयर, काउंसिल और स्टाफ का धन्यवाद।”

- *टोड लेट्स (Todd Letts), सी.ई.ओ., ब्रैम्पटन बोर्ड ऑफ ट्रेड*

-30-

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca

